

30 अक्टूबर , 2020 गोरखपुर ।

जशन -ए- ईद -मिलाददुन्नबी के मुबारक मौके पर एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन रेती रोड ,होटल मून लाइट के समीप गोरखपुर में गोरखनाथ ब्लड बैंक द्वारा किया गया । इस शिविर का आयोजन श्री गुरुनानक देव रक्त दान सेवा सोसायटी एवं फिराक लिटरेरी सोसायटी,गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. अवधेश अग्रवाल ने बताया की पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर ईद-ए-मिलाद-उन-नबी या ईद -ए-मिलाद पर्व का उत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। पैगम्बर साहब की जन्म की खुशी में मस्जिदों में नमाजे होती है,रात भर मोहम्मद साहेब को याद कर प्रार्थनाए कर जुलूस निकला जाता है।मजलिसे लगती है।इनके साथ ही पैगम्बर मोहम्मद की दी हुई शिक्षा और पैगाम को पढ़ा जाता है और उसपे अमल किया जाता है।इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक विशाल रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया

डॉ अग्रवाल ने बताया की इस संस्था द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए गोरखनाथ ब्लड बैंक का चयन हमारे लिए गर्व की बात है।आप सभी रक्तदाता अनुकरणीय एवं वंदनीय है युवाओं से रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नियमित रक्तदान कर मानव सेवा के लिए आहवाहन किया।

।। आपके रक्त का थोडा सा अंश बचा सकता है बहुतो का बंश।।

इस संस्था के अध्यक्ष - महबूब सईद हारिस सचिव- फारुख जमाल द्वारा रक्त दाताओं का उत्साह बर्धन किया गया, फरहान काज़मी,इमरान खान, आकांक्षा पाण्डेय,साहिल खान, शैलेश यादव, दानिश, अशफ़ाक अहमद, फारुख जमाल, अफरोज खान , खुशीद अहमद, इत्यादि समेत 20 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया ।

सभी रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र , की चैन,कॉफी मग आदि दिया गया । वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंस, हैण्ड सैनिटाइजेशन तथा मास्क इत्यादि के साथ रक्तदाताओं का चिकित्सीय परिक्षण, हीमोग्लोबिन, बी.पी. पल्स, ब्लड ग्रुप इत्यादि जाँच की गई। इस अवसर पर नगर का प्रबुद्ध वर्ग के लोग पत्रकार बंधु श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा जटाशंकर के सदस्यों सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।